



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 26, मंगलवार, शाके 1941-सितम्बर 17, 2019
Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 09, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9591 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board SriDungargarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board SriDungargarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रपत्र - क

क्र.संख्या	वार्ड संख्या	नव गठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	कालूरोड से पश्चिम की ओर स्थित समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए अडे बस्ती को लेते हुए कालूरोड से पूर्व की ओर लाला जाट का नोहरा जालूनाथ सिद्ध सुन्दर सिकलीगर की चक्की पेमा सांसी घमण्डा महिया सुन्दर मोट सोनी कुए का मैदान तथा सोनी कुए को लेते हुए उत्तर की तरफ पाराशर मन्दिर बनवारी जोशी मघदास स्वामी सीताराम पुरोहित आसूदास स्वामी सीता स्वामी से मोहन जी माली से बीड सीमा तक इससे पश्चिम बीड सीमा के सहारे समस्त बस्ती को शामिल करते हुए दक्षिण कालू रोड तक
2	2	कालूरोड से पूर्व दमामी रोड से दक्षिण भाग पर स्थित श्याम पुरोहित की दुकान को लेते हुए पूर्व अबरार खां लालाराम मेघवाल पूनमचन्द मेघवाल

		पेमाराम नायक गिरधारी जी पुरोहित रामचन्द्र पाण्डिया से दक्षिण की तरफ मकान शिवबक्स जोशी इंगरजी मोहता होते हुए नीचे ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से पश्चिम की ओर दुला मण्डा नन्दू छंगाणी का मकान छोगमल सोनी का मकान होते हुए सम्पत जाट गोविन्दजी पुरोहित से गन्नी दमामी के मकान तक इससे आगे कालू रोड़ तक इससे उत्तर करणी नगर स्कूल बालाजी नगर डेंयरी की बस्ती को शामिल करते हुए कालूरोड़ तक
3	3	कालूरोड़ से पश्चिम मालजी नाई की बाड़ी की समस्त बस्ती को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ ओमप्रकाश सेवग का मकान नेनाराम मास्टर का मकान होते हुए शंकर जाट से भीखाराम जाट होते हुए रतनलाल प्रजापत की दुकान तक इससे दक्षिण गोगा मेड़ी बोहरा चक्की इन्द्र राठी का मकान होते हुए तोलाराम बोहरा के मकान तक इससे पश्चिम कालूरोड़ श्मसान पशु चिकित्सालय गुरुदेव कॉलोनी को शामिल करते हुए पूर्व में कालू रोड़ तक
4	4	गोरू महाराज की बगीची सुरेश कुमार पुत्र गोपाल बाल्मिकी से दक्षिण सरकारी स्कूल से से गीता बाल्मिकी पिटर/ किशोरीलाल से धनराज बाल्मिकी ख्यालीराम से गिरधारी/पोकरराम अमरचन्द्र बाल्मिकी सुगनाराम गोदारा यूनूस गुलाम रसूल सरदाराराम बाना सलीम का मकान शिव मोदी से जसनाथजी धर्मशाला पून्दलसर मार्ग का पश्चिम हिस्सा किसनाराम जी नाई की बाड़ी मालाराम ओझा की बाड़ी को शामिल करते हुये गैस एजेन्सी राजपूत छात्रावास सेसोमू स्कूल, 220 केवी जीएसएस, विनायक पेट्रोलियम के पिछे की आबादी को शामिल करते हुये वसुंधरा नगर रघुपति राघव नगर श्री कृष्णा गोशाला को शामिल करते हुये श्मसान भूमि कालू रोड़ से पक्का जोहड़ पशु फाटक पश्चिम भैरूनाथ बगिची स्टेडियम स्वर्णकार अतिथी भवन से दक्षिण माताजी मन्दिर से कच्चा जोहड़ से गोरू महाराज की बगीची तक

5	5	महावीर मोदी से पूर्व तोलाराम बौथरा होते हुये अजीत पीसीओं पुष्पराज पुगलिया हडमानमल डागा पूनमचन्द पुगलिया पुगलिया भ्रम महिला मण्डल पूनम चंद डागा का कटला गोरधन सिंधी से रामानाई मनोज कुमार जगदीश प्रसाद कपड़े की दुकान से पश्चिम मनु सिंधी से गांधी पार्क होते दक्षिण टी कम्पनी से दक्षिण भारत टेलर्स, भारत टेलर्स से पश्चिम पोस्ट ऑफिस एसबीआई बैंक होते हुये सरकारी अस्पताल से चैनरूप बोथरा नेमीचन्द बाफना का नोहरा से म्मन पारख बच्छराज पारख चैनरूप मालू के माकन तक एवं उत्तर साईड होते हुये अमृत भ्रम होते हुये हाई स्कूल रोड पार करते हुये उत्तर साईड महावीर मोदी तक
6	6	कन्हैयालाल माली से जोशी होस्पिटल पुष्पराज पुगलिया होते हुये नत्थू सिंह राजपूरोहित सब्जी मण्डी, बालिका विधालय मोहन मेडिकल, जनता मेडिकल, चोपदार पेडिकल सत्यनारायण डागा का कटला से दक्षिण एस.कुमार जगनाथ डागा अहसान छीपा जगदीश आचार्य के कटला से पश्चिम डा. सीताराम नेमीचंद कुडलिया महमूद लखाराम हबीब दहिया टिकमचन्द सिंधी लाल मोहम्मद तेली आसीस जाड़ीवाल किशोर तावणिया से रामकुमार ब्रहामण इदरीस तैली मांगीलाल स्वामी होते हुये कन्हैयालाल माली तक
7	7	किसन/बुधाराम, राजूराम, बाबूलाल तेजी सनील कानाराम सूरज बाल्मिकी से भिखाराम बाल्मिकी, बाबूलाल सुथार अली अम्बर मालजी औझा का नोहरा बजरंग प्रजापत कानाराम सियाग रामेश्वर, भिखाराम प्रजापत से पूर्व मालाराम टाक से राधेश्याम राव, जयसियाराम मोदी से पूर्व म्मन तावणियां से मूलाराम सायच से बजरंग झंवरिया संग्राम सायच से भवंरलाल औझा सरकारी स्कूल नम्बर 4 रेवन्तराम प्रजापत फूसाराम प्रजापत भिवदास स्वामी शिव स्वामी की दुकान हेमदास स्वामी भंसाली धर्मशाला से पश्चिम बाबूलाल तावणिया का नोहरा रामलाल बाल्मिकी भागीरथ

		भादू से राजू ठेकेदार से किसन पुत्र बुधाराम बाल्मिकी त्त्र
8	8	मुसेखां पंजाबगर म्हर इडिया स्कूल से प्रजापत भ्मन बट्टीप्रसाद सोनी, बालाजी/बाबोसा महाराज का मन्दिर से उत्तर गफूर कुंजड़ा, ए. कुमार सिंधी खेताराम प्रजापत से पश्चिम सोकत तेली हुसैन तेली भिखाराम नाई से तोलाराम संचेती का नोहरा से दक्षिण मोहन भार्गव किसन लाल नाई कुनणमल नाई शिवरतन/आदूदास स्वामी से हनुमानजी नाई कमलजी नाई कन्हैयालाल औझा, रामेश्वर लाल/नरसाराम सायच निहालचन्द/भिखाराम झंवरिया रामचन्द्र झंवरिया शंकर औझा मणिशंकर औझा मुसेखा पंजाबगर त्त्र
9	9	शिवजी सायच से गोरी शंकर झंवरिया से हड़मान स्वामी भैराराम सियाग से मामराज भाट से जिवराज नाई का बाड़ा पूर्व रामेश्वर बिश्नोई गोकूल बिश्नोई पूर्णाराम पारीक का बाड़ा मंगलाराम गोदारा से श्रीभगवान प्रजापत मूलाराम प्रजापत गंगाराम अडे गणेश प्रजापत नेमजी प्रजापत न्पत माली धनजी सुनार नानूराम कुचेरिया भंवर लाल पुत्र जेसाराम प्रजापत से पश्चिम राजू पुत्र संचियालाल माली लाल चन्द प्रजापत तेजाराम प्रजापत रामदयाल पार्षद हिरालाल मिस्त्री राजूराम नाई सांवरमल राव राधेश्याम शर्मा किरता राम सियाग रामकिशन सियाग से शिवजी सायच त्त्र
10	10	खातून से मूलचंद अडे हुलासजी तंवर कालूखा कुंजड़ा जगदीश गोयतान किशोर पार्षद से पूर्व हिरालाल पटवारी करणी गोशाला, करणी मन्दिर सदीक कुंजड़ा नबू कायमखानी सीताराम जी व्यास राम बक्स से दक्षिण में म्हन कायल से नंदलाल कायल रूपचन्द हिरालाल जोशी लाल मोहम्मद छींपा मंगतु छींपा आरिफ छींपा रामगोपाल शर्मा पुनिया होटल से पश्चिम ख्यालीराम बाहेती भागीरथ बाना पदमनाथ बलिहारा से खातून त्त्र
11	11	गिरधारी लाल नाई से रमेश नाई मालदास स्वामी रूपचन्द सोनी कासम धोबी से दक्षिण मेन रोड़

		<p>मांगीलाल सुनार सुभाष बाल मन्दिर पानी की टंकी रामप्रताप गोदारा चेतन जाखड़ मालाराम जाखड़ खादी भण्डार से आशीष होटल एन्स 11 से दक्षिण जोधपुर मिष्ठान भण्डार अमराराम गोदारा बीएसएनएल ऑफिस अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम वृताधिकारी पुलिस ऑफिस क विभाग मोहन लाल बिहानी की बाड़ी इस्स चाहर बाबूलाल कूकणा से रेल्वे फाटक तक एवं बिदासर रोड़ से पश्चिम का रेल्वे स्टेशन के पास की समस्त आबादी को सम्मिलित करते हुए पुनः उत्तर की ओर घूमचक्कर से पश्चिम एन्स -11 पीडब्लूडी क्वार्टर से खलीक जी का बाड़ा अयुब बिसायती इस्लाम चेजारा शेरू लखारा रमजान लखारा बशीर लखारा अस्सर छींपा इंवरीदीन छींपा रजाक कुंजड़ा सतार धोबी रमजान काजी बबलू धोबी पानी की टंकी का पिछवाड़ा महावीर जोशी चंपालाल जोशी से पुनः गिरधारी लाल नाई तक</p>
12	12	<p>भैरू मोदी टायर वाला बाल भारती पुराना पॉवर हाउस बजरंग पारीक भैरू सिधी राधा किसन सुनार रूपचंन्द सुनार की दुकान से पश्चिम लक्ष्मीनारायण सुनार सांवरमल जोशी रामप्रताप सारस्वत से उत्तर दिशा बाबूलाल सारस्वत यासीन कुंजड़ा मुन्ना सब्जीफरोस भीखू खा कुजड़ा फारूख सब्जी फरोस प्रेम का बाड़ा पपू लखारा बुलाराम प्रजापत अब्दुल फारूख बिसायती मुंशीबेग से उत्तर पूर्वी मोहम्मद हुसैन तेली कादर तेली मोहम्मद भाटी चाण्डको की धर्मशाला से भैरू मोदी की दुकान तक</p>
13	13	<p>सोनी धर्मकांटे से उत्तर कानाराम तर्ड का मकान, सतुजी मोदी से मुरली जी सिंधी जिवराज कलाणी, दिनेश डागा से पुराना बस स्टैण्ड, होतें हुये कुआ जाटान, मालजी पेड़ीवाल के सामने के मकान बालचन्द कोडामल डागा को लेते हुये दक्षिण की तरफ मकान बालचन्द कोडामल डागा, बॉम्बे मॉल से पश्चिम ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी से दक्षिण होते हुये रामकिशन बिन्नाणी विनोद बिन्नाणी,</p>

		कोडामल सुथार, ओमजी सारस्वत की चाकी से महावीर माली से पूर्व ताराचन्द सिधी इससे दक्षिण होते हुये पिसू मल सिधी हेमराज कम्पाउडर से पश्चिम चुतरमल सिधी से दक्षिण गिरधारी सिधी परसूमल सिधी का कारखाना से पश्चिम सोनी धर्मकांटा तक
14	14	श्री भगवान राठी के मकान से पश्चिम विजय कुमार राठी, गंगाराम डागा, राठी जी का बाड़ा से दक्षिण मोहनलाल डागा चांद डागा से बालाजी कटला इससे पश्चिम डागा कटला से दक्षिण घोड़ीवाला नोहरा शोभाचन्द बागड़ी तोलाराम तावणिया गणेश सारस्वत शौकत काजी कारूमल सिधी नन्दलाल सिधी से पूर्व झामन सिधी तक इससे उत्तर भेरुदान स्वामी निरंजन शर्मा सीताराम सुथार भंवरलाल करनाणी मांगीलाल बिहाणी रेवन्तराम झंवर आसाराम सिखवाल होते हुये श्री भगवान राठी तक
15	15	परसुमल सिन्धी की दुकान से एन.एच.11को पार कर दक्षिण की तरफ मालजी होटल बिन्नाणी कुंआ पीडब्लूडी विश्राम ग्रह छात्रावास तेजामंदीर बिजली बोर्ड मोदी कुंआ उरूमल डेयरी कृषि मण्डी से बिदासर रोड़ रेल्वे फाटक के पूर्वी हिस्से में आवासीय बस्ती को शामिल करते हुए गणेश नाथ सिद्ध सोहन पुरी से उत्तर में मकान मालाराम भंवरलाल गोदारा करणी विद्या मन्दिर सलीम बिसायती नेक छीम्पा रफीक काजी सोहन महिया बिसन सिंह रामचन्द्र गोदारा सीताराम नेण विनोद यादव हनुमान मीणा हरलाल भाम्भू पन्नालाल जाट सामुदायिक भवन बच्चन सिंह इससे पश्चिम होते हुए विनोद गुसाई का बाड़ा पुनः पूर्व होते हुए उत्तर नत्थू गोदारा तुलसीराम गोदारा से उत्तर तेजकरण राजपुरोहित इससे पश्चिम चुन्नीलाल टाडा उत्तर पंचायत समिति की पश्चिम दीवार से एन.एच.11 से उत्तर हरी सिधी कालू सिंधी एस कुमार पानमल सिधी, पंचायत के पीछे से होते हुए पश्चिम दिशा के मकान को लेते हुए दक्षिण की तरफ जम्क रिझवानी से उत्तर भागूमल सिधी

		कन्हैयालाल मोदी गोविन्द सिंधी कन्हैयालाल सिंधी से दक्षिण की तरफ महावीर सिंधी रमेश सिंधी से परसूमल की दुकान एन.एच.11 तक
16	16	भगवानाराम नाई के बाड़े से उत्तर मुराद अली चौहान बसीर धोबी करामत काजी राजू माली भंवरलाल जाट मोरू काजी सोकत लुहार अमै तावणिया नोरत लुहार मुनी राम बना विजय चौधरी से पश्चिम जगदीश सिखवाल से उत्तर भगवानाराम जाट डागा नोहरा पंचायत समिति की पश्चिम गेट से उत्तर थाना पुलिस से पूर्व गोशाला मीणा आश्रम पुष्करणा भ्रमन नगरपालिका कोर्ट राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति से दक्षिण गणपति नगर शिव नगर से पश्चिम भगवानाराम नाई का बाड़ा तक
17	17	एन.एच.-11 से उत्तर नारायण दास सिन्धी का बाड़ा रेवन्त सिंह राजपूत प्रकाश गांधी गोपाल खाती रामकिसन उपाध्याय से पूर्व राम किसन सोनी कालीमाता मन्दिर इससे दक्षिण होते हुए ओमजी राणा श्रवण महर्षि से पूर्व रत्न राजोतिया सीताराम मीणा रूपचन्द माली से दक्षिण शिव औझा ताराचन्द खाती इससे पूर्व अबास व्यापारी बिलाल बहलिम सरीफ ठेकेदार पट्टी वाले बाड़े से दक्षिण हिरालाल सिन्धी केलाश वकील मांगीलाल पुरोहित से सारदे बालिका विधालय एन.एच.-11 से पश्चिम रूपादेवी स्कूल होते हुए हडमान जी व्यास लालनाथ कलवाणिया से तूरजमल सिन्धी से एन.एच.-11 के सामने स्थिति नारायण दास सिन्धी के बाड़े तक
18	18	भंवर लाल करनाणी के नोहरे से उत्तर की तरफ गोरी शंकर चाण्डक का मकान मोतीराम जाट बसंत बिहानी डाक्टर नारायण बिहानी सुरज मल्ल तोषनिवाल डागा स्कूल किसन लाल डागा भगवान मल्ल बिहानी इससे पूर्व सत्यनारयण डागा हनुमान मल्ल करनाणी इन्द्र चन्द करनाणी सत्य नारायण करनाणी इससे दक्षिण सोभाचन्द बलदेवा मोहन पच्चीसिया का बाड़ा जबार चुनगर से बजीद व्यापारी लाल मोहम्मद चुनगर अली मोहम्मद

		चुनगर मनफूल ठेकेदार उमेर ठेकेदार मस्जिद से नवाब व्यापारी सलीम गोरी इससे पश्चिम मंकान हुलास म्म मीणा मालचन्द पेड़वाल का नोहरा इससे दक्षिण विक्की मीणा मांगी लाल मीणा रेवन्तराम ताणिया से पश्चिम इन्द्र चन्द राठी से होते हुए भंवर लाल करनाणी के नोहरे तक
19	19	ट्रिन-ट्रिन पी.सी.ओ. महमूद छीपा से पूर्व महामाया मिष्ठान भण्डार मालजी पेडीवाल का मकान आशाराम मूदड़ा किसन लाल करनाणी केलाश पेडीवाल कन्हैयालाल लखोटिया सीताराम झंवर रामचन्द्र सुनार नोरगलाल बिहाणी के नोहरे के सामने मोहन दास स्वामी मास्टर से उत्तर नरसाराम नारायण चन्द मोट बालचन्द राठी तक इससे पश्चिम गौरव पथ सक्क के पास होलीधोरा चिड़पडनाथ बगीची पडित. किसन लाल औझा मनोज लखोटिया महावीर राठी का बाड़ा रिद्धकरण सुनार मोहन लाल मोदी दुकान देवकिसन स्वामी के सामने राम स्नेही कटला से उत्तर हरी मूदड़ा की दूकान होते हुए पश्चिम की ओर दीपचन्द सिन्धी की दूकान दक्षिण से श्रीझंगरगढ़ पुस्तकालय से पुरानी नगरपालिका भक्क होते हुए ट्रिन-ट्रिन पी.सी.ओ. महमूद छीपा तक
20	20	आसाराम मोहता से दक्षिण मांगीलाल बलदेवा श्री भगवान मोहता रमजान व्यापारी हुसैन ठेकेदार टोडरमल बलदेवा कुआ सलीम खोखर अब्दुल बेहलिम से पूर्व म्म मेघवाल से उत्तर हडमान मेघवाल ब्रह्मप्रकाश भाटी बुधाराम बारूपाल महेश मंत्री की चक्की किसन गटाणी का नोहरा जेसराज बिहाणी पदमजी बिहाणी हडमान जी मन्दिर टीकमचन्द जी मूदड़ा बछराज जी चाण्डक के पास स्थित खाली नेहरे को लेते हुए पश्चिम की तरफ मालाराम सुनार से आसाराम मोहता तक ।
21	21	जयचन्द लाल चाण्डक के नोहरे से पूर्व चम्पालाल झंवर म्म पेड़वाल सत्यनारायण झंवर नन्दकिशोर औझा गोविन्द राम पोकरणा से दक्षिण नेमीचन्द रेगर गंगा माई मन्दिर शिवरतन रेगर गोपाल सुनार की दुकान लिछु जाट मुन्शी व्यापारी

		इन्द्र जाट का नोहरा जबार खोखर निजामूदीन चूनगर से सुरजाराम भाटी से पश्चिम मघाराम सुनार घनश्याम सारस्वत रामदेवजी मन्दिर का दक्षिण दरवाजा मालजी पेडिवाल का नोहरा ओमजी सुनार नेमाराम मेघवाल सीताराम मेघवाल की दुकान से उत्तर थानमल भाटी परमेश्वर बारूपाल गोगामेड़ी नेमजी बिहानी मानमल बलदेवा जोरमल लाहोटी से जयचन्द लाल चाण्डक के नोहर तक ।
22	22	गोपीराम मीणा से पूर्व विनोद गुसाई करामत काजी उमरदीन काजी काजी पंचायत शेराराम मेघवाल छन्न खाती मोहन जी वकील का बाड़ा भोमिया जी मन्दिर शान्ति प्रकाश जी मास्टर रावतराम कडवासरा से पुन शान्ति प्रकाश मास्टर होते हुए किशन जोशी समुन्द्र सिंह राज पुरोहित बनवारी लाल पाडिया पूर्व में शमसान भूमि केसराराम कडवासरा से पश्चिम होते हुए पुन दक्षिण की ओर हरलाल पटवारी नन्द लाल लूखा श्रवण सारण पन्ने सिंह राजपूत सोहन पुरी का बाड़ा टीकूगर गुसाई एन.एच.-11 से पश्चिम भोजराज सुथार श्री किशन पटवारी सोहन पुरी सत्यनारायण मोदी भिमसेन तनेजा बी.जे.पी. कार्यालय भवरलाल जाखड रूपा देवी माध्यमिक विधालय का मैदान से उत्तर बजरंग माली सीताराम सुनार इदरीश काजी आरीफ व्यापारी नब्बूगोरी पप्पू सिन्धी महमूद काजी से पश्चिम आमीन काजी मुस्ताक काजी मुमताज काजी इससे पश्चिम मूला पालीवाल नूम मोदी जयनारायण मास्टर से उत्तर सलीम काजी से पश्चिम सीताराम सुनार से पुनः उत्तर आमीन काजी से विनोद गुसाई तक ।
23	23	गौरवपथ से इलायो के मकानो को लेते हुए पीछे की ओर दक्षिण में गुमानजी की चक्की सीताराम लोहिया जगदीश स्वामी चम्पालाल गेडरराम रेगर से पूर्व जगदीश आचार्य का बाड़ा इससे उत्तर पोकर भार्गव मोहन भार्गव इन्द्र भार्गव हडमान भार्गव भीखा भार्गव (उदरासर वाला) जगमाल

		चूनगर की स्कूल से सोहन प्रजापत से गौरवपथ होते हुए पश्चिम में इलायों के मकान तक ।
24	24	गौरव पथ पर जीवराज भार्गव से पूर्व सरदाशहर रोड़ गौशाला से सरदारशहर रोड़ पार करते हुए देवनारायण नगर साई बाबा नगर कमला नगर अब्दुला का कब्जा हीरालाल पाडिया पेट्रोल पम्प को लेते हुए एन.एच.-11 पार करते हुए दक्षिण की तरफ मालीयों की बाड़ी से पश्चिम हडमान घोरा से पीछे दक्षिण में स्थित नारायण सुनार की समस्त कॉलोनी को शामिल करते हुए पुनः पश्चिम में आदर्श विधा मन्दिर ए.जी. नगर श्री इंगरगढ़ महाविधालय के पीछे दक्षिण समस्त बस्ती को लेते हुए गणपति नगर तक व शिवनगर तक एन.एच.- 11 श्रीइंगरगढ़ महाविधालय के सामने उत्तर की तरफ एन.एच.-11 पार करते हुए विवादीत भूमि से मुस्ताक चूनगर जब्बार चूनगर खालीद बेहलीम आबीद व्यापारी मदरसा खोखरान किशन रेगर जगदीश आचार्य सम्पद भार्गव से पुनः गौरव पथ जीवराज भार्गव तक
25	25	एन.एच.-11 पर स्थित विवादीत भूमि के उत्तर की तरफ चार दीवारी से गफुर व्यापारी का नेहरा निजामुदीन चूनगर जमालदीन चूनगर कायमदीन चूनगर रमजान तंवर पदमाराम रेगर मुनीराम रेगर से पश्चिम रूपाराम रेगर सतपाल रेगर चौखाराम रेगर आँकार राम रेगर चुन्नी लाल रेगर अर्जुन राम रेगर से दक्षिण अब्दुला गेस्ट हाउस होते हुए रेगरों की श्मसान भूमि से सुरेश गुप्ता को लेते हुए एन.एच.-11 पर स्थित विवादीत भूमि तक ।
26	26	जगम्बा स्टोर से पूर्व सुरेन्द्र डाकलिया की दुकान सत्य नारायण मुधंड़ा का पिछवाड़ा दक्षिण में मोहम्मद हुसैन छींपा राजाराम राधेश्याम मोची महावीर जी व्यास भवंर लाल मुधंड़ा रुघलाल तापड़िया से उत्तर श्रीराम मन्दिर छान लाल व्यास सीताराम डागा अशोक व्यास बृजलाल औझा मुन्ना करवा करणी सिंह राजपूत शंकर दर्जी फक्र बोथरा से पश्चिम खाली बाड़ा कोजाराम नाई गुलाब जी श्यामसुखा कम्मल जी सिंधी बुधमल जी

		तातेड़ माणक चन्द मुन्शी प्रकाश सिंह डालजी नाहटा हिरालाल मालू का मकान चद्रमल जी श्यामसुखा बनेचन्द मालू का नोहरा से दक्षिण पृथ्वीराज कुडलिया श्री किसन जी सुनार (राजू दर्जी) टीकू राम सेवग की चक्की राजमल विजयराज डागा से पूर्व छन्न लाल तापड़िया पुनः दक्षिण बृजमोहन मुधंडा से होते हुये जगदम्बा स्टोर तक
27	27	पूर्णाराम जी व्यास से पूर्व रमेश धूत मूधड़ा का नोहरा नारायण पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा नोहरा सोहन लाल बिहानी से उत्तर म्दन लाल बाहेती पूर्ण चन्द जी लोहिया मोहन लाल लोहिया चुन्नी लाल सोमानी का नोहरा गोपी सोमानी का नोहरा हड़मानजी मन्दिर, जमुना प्रसाद लखोटिया नोहरा तक इससे पश्चिम जमुना प्रसाद जी लखोटिया का नोहरा खीवकरण सोमानी का कुआ धनराज जी कलाणी के मकान से आगे बस्तीराम जी गुरावा याकूब चूनगर जीएलअर के पास से होते हुए मकान पाण्डिया का नोहरा तक इससे दक्षिण रघुवीर प्रजापत बेगराज पुगलिया कालूराम सुरजा राम नाई रिद्धकरण सुनार हेमन्त भंसाली गोपीराम जी मास्टर से माताजी मन्दिर गणेशमल मूधड़ा रामेश्वर जी डागा भैरूजी मन्दिर से पूर्णाराम जी व्यास तक
28	28	मकान शिवरतन भटफोड़ा से पूर्व इन्द्र जी मालपानी टीकू जी प्रजापत गौशाला के पास होते हुए सरदाशहर रोड़ तक रोड़ को पारकर पानी टंकी माली देवी बाहेती स्कूल इससे आगे समस्त आबादी क्षेत्र को लेते हुए उर की तरफ गौशाला (बछड़ा) को लेते हुए पश्चिम की तरफ सरदारशहर रोड़ पार करते हुए भवानी बिल्डींग मेटेरियल स्टोर से आगे इंगर जी प्रजापत हरी दर्जी की दुकान मोहन व्यास सुखदास जी स्वामी गुलाब जी सुनार धनराज जी कलाणी का नोहरा इससे दक्षिण म्दन सुनार गोपाल जी पुरोहित देवकिसन सोमानी का मकान ठाकुरजी मन्दिर होते हुए नारायण कलाणी के मकान को लेते हुए भंवरजी जोशी के

		मकान से आगे रामजी पुजारी रेवन्त जी ढक्क से शिवरतन भटफोड़ा त्क
29	29	लाभुजी प्रमोद सेठिया के मकान से पूर्व सुरजारामजी सेवग भवंरलाल जी गोलच्छा के पीछवाड़े से उत्तर मोहन गोलछा पूनमचन्द्र डाकलिया से रूपचन्द्र जी मिनिया ओसवाल पंचायत भवन (अह्मर बास) हरि प्रमेश्वर नाई सुगनारामजी नाई भार्गव भ्मन होते हुए बीड़ सीमा त्क सीमा के सहारे सभी आबादी क्षेत्र को लेते हुए पश्चिम की त्फ लखासर नया भेरुजी मंदिर लेते हुए उसके पास की समस्त आबादी को शामिल करते हुए बछड़ा गौशाला के आगे बालचंद्र सुनार हनुमान जी मंदिर(सूनारों का) लेते हुए कालू जी दर्जी हुलास जी दर्जी माणक जी सेठिया होते हुए लाभु प्रमोद से सेठिया त्क
30	30	सरदारशहर रोड़ से पश्चिम हनुमानजी मन्दिर गोपाल सुनार का मकान, तिलोक सारस्वत, मोहन तिवाडी, अह्मर सिंह राजपूत के मकान से उत्तर की त्फ मुड़ते हुए काशी राम दर्जी से उत्तर सत्यप्रकाश पुरी रामदेवजी मन्दिर रामचन्द्र जी ताविणयां शंकर गुसाई के मकान से पश्चिम होते हुए रामप्रताप जाट से जसनाथ जी बाड़ी होते हुए बीड़ भूमि से पूर्व की ओर मुड़ते हुए प्रभू राम गिवारिया से राजू गिवारिया से गोविन्द स्वामी रेवन्तराम न्मर होते हुए दक्षिण की त्फ सरदाशहर रोड़ पार होते हुए पश्चिम की त्फ रामनारायण से सरदारशहर रोड़ त्क
31	31	दुलाराम जाट के मकान से पश्चिम की त्फ मांगीलाल जी दर्जी बजरंग माली रूघलाल जी सोमानी का बाड़ा लखोटिया कुआ से उत्तर की त्फ मुड़ते हुए लखोटिया कुआ सारण नारायण दास स्वामी का मकान से पश्चिम की त्फ मुड़ते हुए माणक कम्पाउडर बेगराज सोमानी कुआ होते हुए सोहन जी गोड़ श्रवण सुनार के मकान से उत्तर की त्फ मुड़ते हुए रत्न दर्जी मांगीलाल नाई रामचन्द्र तिवाडी होते हुए श्मसान भूमि से पूर्व की त्फ मुड़ते हुए सुरजा राम जाट हड़मान

		गिवारिया होते हुए हंसराज गिवारिया सहीराम नाथ कैलाश सारस्वत के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए देवीदत्त तावणिया के मकान होते हुए तोलजी सारस्वा राम किशन मण्डा मुनीराम गुरावा के घर से बन्द गली से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए भंवर जी स्वामी बिजू बाल्मिकी नरसी राम प्रजापत सुवटी प्रजापत के मकान से बेगाराम बाल्मिकी के मकान से गिरधारी जी कस्वां का बाड़ा से कोडामल दर्जी होते हुए दुलाराम जाट के मकान तक
32	32	हरि सिंह की चक्की से उत्तर की तरफ भैरू सुनार बाबूलाल औझा हडमान देरासरी घनश्याम सुनार रामजी सुनार छप्पर गुंसाई से श्मसान होते हुए पश्चिम की तरफ जाकिर चुनगर किसन सिंह राजपूत किशोर सिंह राजपूत गोविन्द शर्मा रूपजी कुम्हार पुरखाराम जाट कालू जी लुहार शंकर मेघवाल बीड़ भूमि से पश्चिम की तरफ रामू नायक से दक्षिण की तरफ केशराराम जाट गोपालजी सुनार से सरकारी जीएलआर के सामने प्लम नाथ का बाड़ा हिराराम भादू परमनाथ सिद्ध चबुतरा होते हुए शैतान सिंह राजपूत किशन भादू की चक्की भगवानाराम नेण कालू सिंह के मकान से पूर्व की तरफ मालजी पेड़वाल का नोहरा कालू सिंह की चक्की नवाब चुनगर कंवर अली चुनगर बुधु खां चुनगर अस्तअली चुनगर होते हुए हरि सिंह की चक्की तक
33	33	बच्छराज धाड़ेवा के मकान से पूर्व गुलाब जी श्यामसुखा सम्पतजी पुगलिया बाबूलाल सिंधी सैन जी मंदिर ओमजी दर्जी से उत्तर रेवन्तराम ताविणया का बाड़ा सुमेर सिंधी योगेश स्वामी चिरजीलाल वेध का बाड़ा इससे पश्चिम होते हुए पुनः उत्तर में मूलाराम नेण का बाड़ा श्रवण भादू रामलाल भादू नानूराम रामलाल तावणिया घेवर जोशी कम्ल नाई सीताराम नेण पूनमचन्द नाई ठेकेदार कोडू नाई का बाड़ा बिजू नाई नानूराम नाई आसू सिंह राजपूत कानाराम नाई खेताराम नाई पूनमचन्द ताविणया का बाड़ा सरकारी भूमि

		किशन नाई तोलाराम भार्गव से पीएचईडी का पीछवाड़ा सीताराम सुथार का पीछवाड़ा श्रवण नाई कालूराम नाई का पिछवाड़ा हरी धांधल भेरू धोरे के सामने से पश्चिम होते हुए दक्षिण होते हुए कैलाश सारस्वत सीताराम सुथार का बाड़ा पीएचईडी का मुख्य दरवाजा आंगनबाड़ी स्कुल हड़मान भार्गव सांवरमल सुथार विनोद बोथरा रूप सिंह राजपूत चम्पालाल नाई जसवंत सिंह कोटड़िया मंगतमल बोथरा देवचन्द झाबक होते हुए बच्छराज धाड़ेवा त्क
34	34	राजमल डागा की दुकान से उत्तर धनजी दर्जी के मकान त्क इससे पश्चिम धनराज भादानी भीखजी सेठिया सोहन लाल बोथरा कुआ बोधराम श्रीचन्द कठोटिया होते हुए आगे कालूरोड़ को पार कर पम्प हाउस व इससे आगे बावरिया बस्ती को छोड़कर पक्के जोहड़ को शामिल करके पूर्व की ओर कालू रोड को पारकर सरकारी हाई स्कूल इससे उत्तर मकान कन्हैयालाल बोथरा बिछराज दूगड मांगी लाल पुगलिया भंवरलाल उपाध्याय पानमल पुगलिया टी.एस.एस. होते हुए हाई स्कूल के पश्चिम में कन्हैयालाल बोथरा के पिछे वाली गली शिव स्कूल को शामिल करते हुए।
35	35	राधाकिशन सोनी के मकान के पीछवाड़े से दक्षिण की ओर सम्पत बोहरा सुरजा राम जी बोहरा के मकान होते हुए आसी बाई मास्टरनी भंवरलाल बोहरा त्क इससे पूर्व रानी बाजार रोड़ पर बच्छराज बोथरा का मकान बोथरा नोहरा होते हुए राजू चाण्डक शिव स्कूल लक्ष्मीनारायण जी सेवगो का मन्दिर से हंसराज बुच्चा के मकान त्क इससे उत्तर उमारामजी आसोपा मोहता भंवन से पश्चिम झंवरों का मन्दिर महेश्वरी भ्कन नेहरू पार्क म्कन जी बिहाणी भंवरलाल जी बिहाणी हुलासजी सोनी से बालचन्द सोनी के मकान से उत्तर शिव जोशी मोहता का मकान से पश्चिम रत्न जी मास्टर बृजाराम पांची लाल जी सोनी से राधाकिशन जी सोनी के मकान त्क
36	36	पूरब चन्द सेठिया के मकान से उत्तर कन्हैयालाल

		जी सुथार मोहन जी वकील के पिछवाड़े प्रह्लाद दर्जी रामलाल सुनार होते हुए जगदीश भार्गव से सुथारो के मकान तक इससे आगे बीड सीमा के सहारे पश्चिम की तरफ टीकू जी ज्याणी हडमान जाट श्री किशन जी पुरोहित से धोलिया रोड के पश्चिम सीताराम जाट होते हुए दक्षिण की तरफ रामू सुथार बाड़ा से मकान अणताराम नाई सीताराम ब्रहामण मघजी सुथार के आगे संजू शर्मा के मकान से आगे हडमान झाबक के पास के नोहरे तक इससे पश्चिम होते हुए बाल निकेतन स्कूल से आगे नरेन्द्र सुनार से पुरखचन्द सेठिया तक
37	37	नोहरा पुगलिया से उत्तर कासीराम सोनी मकान से आगे बाफना का मकान से किसन जी झंवर सोहनलाल बाफना से शोभाचन्द जी आसोपा से जेसाराम जी आसोपा तक इससे पूर्व ओमजी सोनी का मकान लालजी बरडिया से तेजमाल जी मोहता तेरापंथ महाप्रज्ञ (उपरला भंवन) होते हुए लूनकरण जी बोथरा से दक्षिण जगदीश सुनार हजारी मल्ल जी पींचा से कन्हैयालाल जी दर्जी से आगे बोथरा भक्कन झूंगर सुनार शनि मन्दिर होते हुए हरी बाहेती तक इससे पश्चिम गुलाबचन्द बोथरा मोहनलाल भादानी काशीराम सुनार मालू भक्कन से आगे गोगाजी थान होते हुए नोहरा पुगलिया तक
38	38	मकान रामेश्वर राठी से उत्तर मकान नन्दू सुनार नोरत जी सुनार खाली नोहरा नागरजी माली आसू नाई लूणा प्रजापत आसू नाई के लड़के के मकान को लेते हुए बीड सीमा तक इससे पूर्व जीएलआर के पास होते हुए शंकर गुसाई शिव धोरा जीवदया गौशाला धोलिया रोड पार कर के हरि जी जाट के मकान को लेते हुए समस्त भेडिया दफ्तर बस्ती को शामिल करते हुए पुनः पश्चिम की तरफ मुडकर सीताराम जाट (धोलिया वाले) को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ नोहरा देवका ब्रहामण होते हुए मकान नारायण सुथार तुलछा सुथार पत्रकार महावीर सारस्वत डा. महावीर पंवार होते हुए एलसी बिहाणी के नोहरे तक इससे पश्चिम

		रत्न लाल माली होते हुए रामेश्वर राठी तक
39	39	सम्पतजी पुरोहित से पूर्व रमेश पारीक मदन पुरोहित रामप्रताप जी राठी से आगे शंकर जी आसोपा रामेश्वर जी तोषनिवाल का मकान से होते हुए श्यामसुन्दर आसोपा के मकान से आगे पूर्व प्रहलाद सुनार के मकान तक इससे दक्षिण बजरंग सुनार रामरतनजी झंवर श्याम बाहेती गोरी शंकर सुनार से कुनणमल गीया तक इससे पश्चिम झंवरों की दुकानों से आगे अम टॉवर होते हुए हीरालाल जी बैध से आगे मोहन लाल जी झंवर शंकर लाल जी झंवर मांगीलाल तोषनिवाल कुनणमल जी सोनी भिख जी सोनी हुलास जी सोनी तक इससे उत्तर अम सोनी मालजी सोनी केलाश जी तोषनिवाल से आगे जगनाथ जी होते हुए शिवरतन पुरोहित से सम्पत पुरोहित तक
40	40	नोहरा सोहनी पुरोहित से पूर्व हाकू जी नाई फूसाराम पुरोहित धर्मजी नाई भवंर जी पुरोहित (मास्टर) का त्रिलोकजी शर्मा सीताराम जी पाण्डिया गोपी पाण्डिया लूणाराम जाट चैना राम कुम्हार तक इससे उत्तर बंशी प्रजापत राधेश्याम बोडलवाल से बीड सीमा तक इससे पश्चिम बीड के सहारे होते हुए दक्षिण बिमला जाट होते हुए सीताराम नाई जेसदास स्वामी रामनिवास जोशी का मकान गोकुल जी पुरोहित से मेघराज जोशी के मकान से आगे दुलसिंह भाटी से होते हुए खेतरामजी पाण्डिया सोहन मामा बाबूलाल जोशी से नोहरा सोहन जी पुरोहित तक

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीङ्गरगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।